



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022025-261155
CG-DL-E-19022025-261155

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]
No. 128]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2025

सं. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1170).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं। चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	प्रतिस्थापन तिथि	भारतीय मानकों, यदि वापस लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	वापस होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 1448 (भाग 199) : 2025	05 फरवरी 2025	लागू नहीं	लागू नहीं

	आई एस ओ 8754 : 2003 पेट्रोलियम और उसके उत्पाद — परीक्षण पद्धतियाँ भाग 199 गंधक की मात्रा का निर्धारण — ऊर्जा-वितरणशील एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री			
2	आई एस 3290 : 2025 घरेलू सिलाई मशीनें — कैम- टाइप सिलाई मशीनों के लिए श्रैड टेक-अप लीवर उप-समुच्चय — विशिष्टि (चौथा पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 3290 : 1994 घरेलू सिलाई मशीनें — कैम टाइप सिलाई मशीनों के लिए श्रैड टेक अप लीवर उप-समुच्चय — विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	05 अगस्त 2025
3	आई एस 8066 : 2025 खदान कारें — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 8066 – 1976 खदान कारों के लिए विशिष्टि	05 अगस्त 2025
4	आई एस 8276 (भाग 1) : 2025 निर्वात गेज के अंशशोधन की पद्धति भाग 1 10^{-5} Pa से 10^{-1} Pa की दाब सीमा में सतत प्रवाह से दाब में कटौती (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 8276 (भाग 1) – 1976 निर्वात गेज के अंशशोधन की पद्धतियाँ भाग 1 10^{-1} से 10^{-5} Pa की दाब सीमा में सतत प्रवाह से दाब में कटौती	05 अगस्त 2025
5	आई एस 9522 : 2025 ऐजिटेटर उपकरण — रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 9522 – 1980 ऐजिटेटर उपकरण के लिए रीति संहिता	05 अगस्त 2025
6	आई एस 10305 : 2025 घरेलू प्रयोजनों की सिलाई मशीनें — फ्रीड रॉक शाफ्ट क्रैंक — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 10305 – 1982 घरेलू प्रयोजनों की सिलाई मशीनों के फ्रीड रॉक शाफ्ट क्रैंक के लिए विशिष्टि	05 अगस्त 2025
7	आई एस 10596 (भाग 1) : 2025 औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए पम्पों के चयन, संस्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण — रीति संहिता भाग 1 चयन (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 10596 (भाग 1) – 1983 औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए पम्पों के चयन, संस्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए रीति संहिता भाग 1 चयन	05 अगस्त 2025
8	आई एस 10777 : 2025	05 फरवरी	आई एस 10777 : 1994	05 अगस्त

	खुले उत्खनन के लिए विस्फोटन सहित यांत्रिक साधनों द्वारा चट्टान उत्खनन की इकाई दर विश्लेषण के लिए प्रोफार्मा (दूसरा पुनरीक्षण)	2025	यांत्रिक साधनों, विस्फोट सहित, द्वारा चट्टान उत्खनन के प्रति इकाई दर के विश्लेषण का प्रपत्र खुले उत्खनन के लिए (पहला पुनरीक्षण)	2025
9	आई एस 11638 : 2025 यांत्रिक तरीकों से तटबंध के निर्माण में इकाई दर के आंकलन के लिए प्रोफार्मा (दूसरा पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 11638 : 2000 यांत्रिक साधनों द्वारा तटबंध निर्माण की इकाई दर के आंकलन के लिए प्रारूप (पहला पुनरीक्षण)	05 अगस्त 2025
10	आई एस 12213 : 2025 यांत्रिक कंपन स्क्रीन — रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 12213 – 1987 यांत्रिक कंपन स्क्रीन के लिए रीति संहिता	05 अगस्त 2025
11	आई एस 13806 : 2025 घरेलू सिलाई मशीन — बंद टाइप फिरकी चाल समुच्चय — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 13806 : 1993 घरेलू सिलाई मशीन — बंद टाइप फिरकी चाल समुच्चय — विशिष्टि	05 अगस्त 2025
12	आई एस 14207 : 2025 घरेलू सिलाई मशीनें — खुला टाइप शटल रेस उप-समुच्चय — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 14207 : 1994 घरेलू सिलाई मशीन — खुले किस्म की शटल रेस उप-समुच्चय की विशिष्टि	05 अगस्त 2025
13	आई एस 14352 : 2025 सूक्ष्म सुरक्षा चश्मे — विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 14352 : 1996 खनिकों के लिये सुरक्षा चश्मे — विशिष्टि	05 अगस्त 2025
14	आई एस 17570 (भाग 4) : 2025 आई एस ओ 16890-4 : 2022 सामान्य संवातन के लिए एयर फिल्टर भाग 4 न्यूनतम भिन्नात्मक परीक्षण दक्षता ज्ञात करने के लिए कंडीशनिंग पद्धति (पहला पुनरीक्षण)	05 फरवरी 2025	आई एस 17570 (भाग 4) : 2021 आई एस ओ 16890-4 : 2016 सामान्य संवातन के एयर फिल्टर भाग 4 न्यूनतम भिन्नात्मक परीक्षण दक्षता ज्ञात करने के लिए कंडीशनिंग पद्धति	05 अगस्त 2025
15	आई एस 19108 : 2025 आई एस ओ 24410 : 2020 भू-संचलन मशीनरी — संघात परिचालन अभिमुख भारकों के	05 फरवरी 2025	लागू नहीं	लागू नहीं

	युग्मक उपकरण			
16	आई एस 19154 : 2025 आई एस ओ 6165 : 2022 मृदा — संचरण मशीनरी — आधारभूत प्रकार — पहचान और शब्दावली	05 फरवरी 2025	आई एस/आई एस ओ 6165 : 2012 मिट्टी-उठाने की मशीनरी — आधारभूत टाइप — पहचान एवं पारिभाषिक शब्दावली तथा परिभाषाएँ	05 अगस्त 2025

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./985/2024-25]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2025

No. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1170).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 1448 (Part 199) : 2025 ISO 8754 : 2003 Petroleum and its Products — Methods of Test Part 199 Determination of Sulfur Content — Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry	05 February 2025	NA	NA
2	IS 3290 : 2025 Household Sewing Machines — Thread Take-Up Lever Sub- Assembly for Cam-Type Machines — Specification (Fourth Revision)	05 February 2025	IS 3290 : 1994 Household Sewing Machines — Thread Take-Up Lever Sub- Assembly for Cam Type Sewing Machines — Specification (Third Revision)	05 August 2025
3	IS 8066 : 2025 Mine Cars — Specification (First Revision)	05 February 2025	IS 8066 – 1976 Specification for Mine Cars	05 August 2025
4	IS 8276 (Part 1) : 2025 Method for Calibration of Vacuum Gauges Part 1 Pressure Reduction by	05 February 2025	IS 8276 (Part 1) – 1976 Methods for Calibration of Vacuum Gauges Part 1 Pressure Reduction by	05 August 2025

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Continuous Flow in the Pressure Range of 10^{-5} Pa to 10^{-1} Pa (First Revision)		Continuous Flow in the Pressure Range of 10^{-1} to 10^{-5} Pa	
5	IS 9522 : 2025 Agitator Equipment — Code of Practice (First Revision)	05 February 2025	IS 9522 – 1980 Code of Practice for Agitator Equipment	05 August 2025
6	IS 10305 : 2025 Sewing Machine for Household Purposes — Feed Rock Shaft Crank — Specification (First Revision)	05 February 2025	IS 10305 – 1982 Specification for Feed Rock Shaft Crank for Sewing Machines for Household Purposes	05 August 2025
7	IS 10596 (Part 1) : 2025 Selection, Installation, Operation and Maintenance of Pumps for Industrial Applications — Code of Practice Part 1 Selection (First Revision)	05 February 2025	IS 10596 (Part 1) – 1983 Code of Practice for Selection, Installation, Operation and Maintenance of Pumps for Industrial Applications Part 1 Selection	05 August 2025
8	IS 10777 : 2025 Proforma for Analysis of Unit Rate of Rock Excavation by Mechanical Means Including Blasting for Open Excavation (Second Revision)	05 February 2025	IS 10777 : 1994 Proforma for Analysis of Unit Rate of Rock Excavation by Mechanical Means Including Blasting for Open Excavation (First Revision)	05 August 2025
9	IS 11638 : 2025 Proforma for Estimation of Unit Rate in Construction of Embankment by Mechanical Means (Second Revision)	05 February 2025	IS 11638 : 2000 Proforma for Estimation of Unit Rate of Construction of Embankment by Mechanical Means (First Revision)	05 August 2025
10	IS 12213 : 2025 Mechanical Vibrating Screens — Code of Practice (First Revision)	05 February 2025	IS 12213 – 1987 Code for Mechanical Vibrating Screens	05 August 2025
11	IS 13806 : 2025 Household Sewing Machine — Closed Type Shuttle Race Assembly — Specification (First Revision)	05 February 2025	IS 13806 : 1993 Household Sewing Machine — Closed Type Shuttle Race Assembly — Specification	05 August 2025
12	IS 14207 : 2025 Household Sewing Machines — Open Type Shuttle Race Sub-Assembly — Specification (First Revision)	05 February 2025	IS 14207 : 1994 Household Sewing Machines — Open Type Shuttle Race Sub-Assembly — Specification	05 August 2025
13	IS 14352 : 2025 Miner's Safety Goggles —	05 February 2025	IS 14352 : 1996 Miner's Safety Goggles —	05 August 2025

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standards Established	Date of Establishment	No. , Year & Title of the Indian Standards to be Withdrawn, if any	Date of Withdrawal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Specification (First Revision)		Specification	
14	IS 17570 (Part 4) : 2025 ISO 16890-4 : 2022 Air Filters for General Ventilation Part 4 Conditioning Method to Determine the Minimum Fractional Test Efficiency (First Revision)	05 February 2025	IS 17570 (Part 4) : 2021 ISO 16890-4 : 2016 Air Filters for General Ventilation Part 4 Conditioning Method to Determine the Minimum Fractional Test Efficiency	05 August 2025
15	IS 19108 : 2025 ISO 24410 : 2020 Earth-Moving Machinery — Coupling of Attachments to Skid Steer Loaders	05 February 2025	NA	NA
16	IS 19154 : 2025 ISO 6165 : 2022 Earth — Moving Machinery — Basic Types — Identification and Vocabulary	05 February 2025	IS/ISO 6165 : 2012 Earth Moving Machinery — Basic Types — Identification and Terms and Definitions	05 August 2025

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./985/2024-25]